



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 1978/माघ 17, 1899

No. 52] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 1978/MAGHA 17, 1899

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शंखर बाजार प्रभाग)

अधीनस्थता

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1978

का. आ. 66 (अ.).—केंद्रीय सरकार, बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बंगलौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् एक्सचेंज कहा गया है) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात में संतुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकीहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस एक्सचेंज को 16 फरवरी, 1978 से शुरू होने वाली और 15 फरवरी, 1983 के साथ समाप्त होने वाली 5 वर्ष की और अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में नीचे दी गई शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है।

शर्तें

(1) किसी भी व्यक्ति को लगातार तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक्सचेंज का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बने रहने की अनुमति नहीं होगी।

(2) हाइंगीक वर्तमान सदस्यों को, चाहे उनकी शैक्षणिक अर्हताएं कुछ भी हों, सदस्य बने रहने दिया जाएगा, लेकिन नए व्यक्तियों को एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि उन्होंने मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर रखी हो।

2. एक्सचेंज की अन्तर्निर्णयवाली में उक्त प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र लेकिन हर हालत में 16 फरवरी, 1978 से एक वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर संशोधन कर दिया जाएगा।

[सं. एफ. 1/28/एस. ई./77]

ए. वी. गणेशन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1978

S. O. 66 (E).—The Central Government, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Bangalore Stock Exchange Limited, Bangalore (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, for a further period of five years commencing on the 16th February, 1978, and ending with the 15th February, 1983, in respect of contracts in securities, subject to the conditions stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

CONDITIONS

(1) No person shall be allowed to continue as President or Vice President of the Exchange for a period of more than three consecutive years.

(2) While the existing members may be allowed to continue irrespective of their educational qualifications the new entrants shall be required to have passed matriculation or an equivalent examination for acquiring the membership of the Exchange.

2. The Articles of Association of the Exchange shall be amended for the purpose aforesaid as early as possible but in no case later than a period of one year from 16th February, 1978.

[No. F. 1/28/SE/77]

A. V. GANESAN, Jt. Secy.